



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 910 राँची, सोमवार

24 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त, 2018

संख्या-15/मु०-16-08/2018 का.- 6574-- झारखण्ड राज्य के समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त के निर्धारण हेतु कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-5028 दिनांक 30 जून, 2016 द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2016” के नियम-13(ख) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली के नियम-8(ii) के प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
<p>इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत लिपिकीय पदों की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारम्भिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।</p>	<p>इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित होगी। जहाँ चयन आयोग की मेधासूची उपलब्ध नहीं हो, वहाँ कर्मियों की आपसी वरीयता नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि तथा जन्म तिथि एक रहने पर नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षर/अक्षरों के आधार पर निर्धारित होगी।</p> <p>चयन आयोग की मेधासूची के आधार पर एवं अन्य माध्यम से, यथा अनुकम्पा के आधार पर, एक ही वर्ष में नियुक्त कर्मियों में चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त कर्मी वरीय होंगे।</p>

यह संशोधन “झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा सेवाशर्त) नियमावली, 2016” के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

“झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2016” के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।
